

प्रेस विज्ञप्ति

एनआईआरएफ में छठी रैंक हासिल करने पर जामिया में खुशी की लहर, स्टाफ एसोसिएशन ने की कुलपति की प्रशंसा

एनआईआरएफ-2021 में बेहतर रैंकिंग पर खुशी ज़ाहिर करते हुए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) की तीनों कर्मचारी एसोसिएशन ने कुलपति प्रो. नजमा अख्तर को पत्र लिखकर उनके कुशल नेतृत्व के लिए उनकी प्रशंसा की, जिसके कारण ही देश के 10 शीर्ष विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय की रैंक 6 तक और ओवरऑल में पिछले वर्ष के मुकाबले 16वीं से 13वीं रैंक तक अपग्रेड होना संभव हो सका है।

जामिया शिक्षक संघ (जेटीए) के सचिव डॉ. मोहम्मद इरफान कुरैशी ने इस उपलब्धि के लिए पूरी जामिया बिरादरी को बधाई देते हुए कहा कि इस खबर के बाद विश्वविद्यालय परिसर में खुशी की लहर है। कुलपति प्रो. नजमा अख्तर के गतिशील और कुशल नेतृत्व में, इतना उँचा स्थान हासिल करना जामिया मिल्लिया इस्लामिया में उच्च क्षमता वाले शिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों की वास्तविकता को दर्शाता है। बयान में यह भी कहा गया है कि जामिया के शिक्षक इस उपलब्धि में अपने अपार योगदान और स्थायी एवं गुणवत्ता उन्मुख शैक्षणिक वातावरण निर्माण के लिए प्रशंसा के पात्र हैं।

जामिया एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसोसिएशन (जेएएसए) ने अपने महासचिव नसीम अहमद द्वारा जारी बयान में कहा कि कुलपति प्रो. नजमा अख्तर के सक्षम, दूरदर्शी प्रशासन कौशल और मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय लगातार तरक्की की ओर बढ़ रहा है। ताजा एनआईआरएफ रैंकिंग इसका जीता जागता उदाहरण है। जासा ने इस उपलब्धि के लिए कुलपति, शिक्षकों और रजिस्ट्रार डॉ. नाजिम हुसैन अल जाफरी को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि प्रो. नजमा अख्तर के नेतृत्व में जामिया तरक्की की कवायद जारी रखेगा।

विश्वविद्यालय के एसआरके स्टाफ एसोसिएशन ने इस उपलब्धि के लिए कुलपति और जामिया बिरादरी को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि वह जामिया को और अधिक ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करती रहेगी। एसोसिएशन ने आश्वासन दिया कि वह विश्वविद्यालय के विकास के लिए उनकी हर संभव मदद करेगी।

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया